



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आश्विन 1936 (श0)
(सं0 पटना 851) पटना, बुधवार, 15 अक्टूबर 2014

सं0 01/स्था0न0वि0-10/2013-2914

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

24 सितम्बर 2014

विषयः—जल संसाधन विभाग के द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित एवं नगर विकास एवं आवास विभाग को सेवा उपलब्ध कराये गये कुल 78 (अठहत्तर) कनीय अभियंताओं (असैनिक) में से सम्प्रति कार्यरत 47 कनीय अभियंताओं के कार्यकलाप पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होने के फलस्वरूप उनकी सेवा अवधि 1 (एक) वर्ष के लिए दिनांक 26.12.2013 से दिनांक 25.12.2014 तक के लिए विस्तारित किये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

1. जल संसाधन विभाग के पत्रांक 7286 दिनांक 08.12.2011 द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सेवा प्राप्त 78 (अठहत्तर) कनीय अभियंताओं (असैनिक) को विभागीय आदेश ज्ञापनांक 268 दिनांक 26.12.2011 द्वारा विभिन्न जिला शहरी विकास अभिकरणों एवं नगर निकाय में पदस्थापित किया गया था। उनकी सेवा अवधि दिनांक 25.12.2012 को समाप्त हो गयी। पुनः विभागीय आदेश सं0-1434 दिनांक 19.06.2013 द्वारा सभी कार्यरत 78 कनीय अभियंताओं की नियोजन अवधि का विस्तार दिनांक 26.12.2012 से दिनांक 25.12.2013 तक (एक वर्ष के लिए) किया गया जिसकी अवधि दिनांक 25.12.2013 को समाप्त हो गयी है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 1718 दिनांक 06.05.2010 की कड़िका 2 (क) में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के सम्बन्ध में प्रावधान दिया गया है कि "संविदा पर नियोजित व्यक्तियों को पुनः 1 (एक) वर्ष के लिए संविदा पर नियोजित किया जा सकेगा परन्तु उन्हें पुनः एकरारनामा संपादित करना होगा और यह एकरारनामा की तिथि से नया नियोजन माना जायेगा"।

अतः विभागीय पत्रांक-1434 दिनांक 19.06.13 के क्रम में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना से संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सेवा प्राप्त कुल 78 (अठहत्तर) कनीय अभियंताओं (असैनिक) में से सम्प्रति कार्यरत कुल 47 (सैतालिस) कनीय अभियंताओं (असैनिक) सूची संलग्न को दिनांक 26.12.2013 से दिनांक 25.12.2014 तक एक वर्ष के लिए संविदा पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति के फलस्वरूप पुनर्नियोजित किया जाता है। पुनर्नियोजन के लिए अवधि

विस्तार वैसे कनीय अभियंताओं का मान्य होगा जो दिनांक 26.12.2013 से अबतक कार्यरत हैं, एवं उनके पारिश्रमिक का भुगतान भी कार्यरत अवधि का होगा। साथ ही उनका एकरारनामा भी एक वर्ष के लिए नया होगा एवं पूर्व में निर्धारित मानदेय पारिश्रमिक का भुगतान देय होगा। इस अवधि विस्तार के बाद कोई अवधि विस्तार इनके मामले में नहीं किया जायेगा।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराई जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विजय रंजन,

सरकार के उप-सचिव।

कनीय अभियंता (संविदा)

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	नाम
1	अररिया	श्री ललितेश कुमार
2	अरवल	श्री फियाज आलम
3	बांका	श्री सुरेश प्रसाद मंडल
4	बेगूसराय	श्री रंधीर कुमार चौधरी
5		श्री रवि कुमार
6	भागलपुर	श्री रंजन कुमार
7		श्री ज्योति कुमार
8		श्री सुशांत कुमार
9		श्री अजीत कुमार
10	भोजपुर	श्री प्रतीक रविधर
11	छपरा (सारण)	श्री नवीन कुमार
12		श्री कुमार चन्द्रभूषण
13	दरभंगा	श्री सुनील कुमार
14	गया	श्री जलज कुमार
15		श्री भूपेन्द्र कुमार
16		श्री सुबोध कुमार
17	गोपालगंज	श्री प्रणव कुमार
18	कैमूर	श्री धमेन्द्र कुमार
19	कटिहार	श्री रवि कुमार
20		श्री जय कुमार सिंह
21	किशनगंज	मो० मसलाम अली
22	मधेपुरा	श्री दिनेश कुमार दास
23	मधुबनी	श्री जय प्रकाश
24		श्री रवि रंजन कुमार
25	मुजफ्फरपुर	श्री प्रमोद कुमार सिंह
26		श्री भरत लाल चौधरी
27	पटना	कुमारी मधु, डूडा-1
28		श्री दिलीप पासवान, डूडा-1
29		श्री धमेन्द्र कुमार महतो, डूडा-2
30		सुश्री सविता कुमारी, डूडा-2
31	पूर्णिया	श्री कमल कुमार
32		श्री चन्द्र भूषण
33	रोहतास	श्री संतोष कुमार
34	सहरसा	श्री उपेन्द्र कुमार
35	समस्तीपुर	श्री राजेश कुमार महेश
36	शेखपुरा	श्री अविनाश कुमार
37	सीतामढ़ी	श्री पंकज कुमार

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	नाम
38	सिवान	श्री धीरज कुमार
39	सुपौल	श्री उमेश कुमार निराला
40	वैशाली	श्री संजीव कुमार कामत
41	प0 चम्पारण	श्री रविरंजन कुवर
42		श्री जितेन्द्र कुमार
43	शिवहर	श्री कृष्ण कुमार चौधरी
44	बक्सर	श्री जितेन्द्र कुमार रजक
45	पटना नगर निगम	श्री राज कुमार
46		श्री चन्द्रदीप कुमार सिन्हा
47		श्री मिथलेश कुमार शास्त्री

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विजय रंजन,

सरकार के उप-सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 851-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>